



राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर

रा. रा. न. 8 बड़लिया चौराहा, नारेली तीर्थ के समीप,
अजमेर (राज.) 305025

Website: www.ecajmer.ac.in
E-mail : principal@ecajmer.ac.in

Telephone : 0145-2971024
Lat-Long: 26.448, 74.702

No. GECA/2018/82

दिनांक: 3rd August, 2018


माननीया संयुक्त सचिव महोदया
तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार.
सचिवालय, जयपुर (राज.)

माननीया महोदया,
आप द्वारा कल हुए वार्तालाप के क्रम में निवेदन है कि राजकीय महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर के शिक्षकों के CAS साक्षात्कार हेतु महाविद्यालय में सेवा रिकार्ड संधारण तथा सेवा पुस्तिका में कतिपय कमियाँ पाई गयीं. सर्वाधिक चिंतनीय विषय यह था कि सेवा पुस्तिका पर नियोक्ता प्राचार्य के हस्ताक्षर तथा कर्मचारी के हस्ताक्षर प्रमाणन का अभाव था.

संलग्न CAC की बैठक के विमर्श विवरण (संलग्न) के अनुसार दिनांक 08.08.2018 तक का समय अभ्यर्थियों को दिया गया है, जिसके पश्चात् कम से कम एक सप्ताह के समय में सेवा तथा हस्ताक्षर प्रमाणन की कार्यवाही में लगाना स्वाभाविक है, क्योंकि इस अवधि में REAP-2018 का अंतिम चरण भी संपन्न होना है और साथ ही, कई शिक्षक व कर्मचारी चुनाव कार्य से जिलाधीश कार्यालय द्वारा अधिग्रहित कर लिए गए हैं.

इसके संग एक तकनीकी बिंदु यह है कि एक शिक्षकों के एक अवैध संगठन ने मुझ पर कतिपय आरोप लगाये थे, जिस क्रम में मैंने अपना त्यागपत्र माह जून 2018 में ही समर्पित कर दिया था. अभी तक उक्त त्यागपत्र पर अथवा उक्त संगठन के सदस्यों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है. इस प्रकार नैतिक रूप से मैं आरोप लगाने वाले संगठन के सदस्यों के साक्षात्कार में भाग लेने में असमर्थ हूँ. सेवा प्रमाणन तथा हस्ताक्षर प्रमाणन तक की कार्यवाही करने के पश्चात् स्क्रीनिंग तथा साक्षात्कार में भाग लेने में मेरी असमर्थता को उचित मान देने की कृपा करें.

भवदीय,


रजन माहेश्वरी

कार्यवाहक (त्यागपत्र की स्वीकृति में प्रतीक्षारत) प्राचार्य
राजकीय महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर